AH -1185 C.V.-19

B.Sc. (Part-III) (Regular/Private/Ex./Suppl.)

Term End Examination, 2019-20

Paper-II **Organic Chemistry**

	: Three Hours] [Maximum Mar	ks : <u>33</u>	
नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित हैं।			
Note : Answer all questions. The figures in the right hand margin indicate marks. इकाई / Unit-I			
1. (a)		[2]	
(6)	Write the method of Preparation of Organomagnisium Compounds.	[2]	
(b)	ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से 1º, 2º एवं 3º ऐल्कोहॉल कैसे प्राप्त करेंगे?	(a)	
(5)	How will you obtain 10, 20 and 30 alcohols from Grignard Reagent?	[3]	
(c)	मस्टर्ड गैस बनाने की विधि लिखिए।	[2]	
(0)	Write the method of preparation of Mustard Gas.	[2]	
1_1	अथवा/Or	[0]	
(a)	क्लेजन संधनन की कियाविधि लिखिए Write the mechanism of claisen condensation.	[2]	
(b)	सकिय मेथिलीन यौगिको की अम्लीयता को समझाइए।	[2]	
	Explain the acidity of reactive methylene compounds.		
(c)	निम्नलिखित यौगिको को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। (i) मैलोनिक एस्टर से सिन्नेमिक अम्ल (ii) ऐसीटोऐसीटिक एस्टर से 4–मेथिल यूरासिल	[3]	
	Give the Chemical reaction involved in the preparation of the following compoun	vde:	
(i) Clinnamic acid from malonic ester. (ii) 4-methyl uracil from acetoacetic ester.			
	इकाई / Unit-II		
2. (a)	D ⁽⁺⁾ गलूकोज की चकीय संरचना की व्याख्या कीजिए।	[3]	
	Explain cyclic structure of D ⁽⁺⁾ Glucose.		
(b)	इरिश्रो व थियो डाइएस्टीरियो – आइसोमर को समझाइये।	[2]	
	Explain erythro and Threo-distereomers.		
(c)	DNA क्या होता है? इसके क्या कार्य है?	[2]	
	What is DNA? What are the function of DNA?		
	अथवा/Or		
(a)	प्रोटिन का विलेयता के आधार पर वर्गीकिरण कीजिये।	[3]	
	Give classification of protein on basis of solubility.		
(b)	शर्करा के वलय आकार ज्ञात करने में HIO₄का क्या महत्त्व है?	[2]	
	What is the role of HIO ₄ in ring size determination of sugar?	- -	
(c)	नाभिकीय अम्लों के कार्य को समझाइये।	[2]	
	Explain the function of Nucleic Acids.	-	

इकाई / Unit-III

3. (a)	जिग्लर नाटा बहुलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।	[3]
	Write note on Ziegler natta polymerization.	
(b)	पोलीऐमाइड बहुलक क्या होते हैं?	[2]
	What are polyamide polymers?	
(c)	पालिएस्टर क्या होते हैं? इसका उदाहरण दीजिये।	[2]
	What are polyester? Give with example.	
	अथवा/Or	
	निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये—	
	(i) मेथिल आरेन्ज (ii) मैलेकाइट ग्रीन (iii) ऐलीजरीन	[2+3+2]
	Write notes on the followings-	
	(i) Methylorgane (ii) Malachite green (iii) Alizarin	
	इकाई / Unit-IV	
4. (a)	वर्णोत्कर्षी तथा वर्णापकर्षी निरथापन को समझाइए।	[2]
	Explain bathochromic and hypsochromic shift.	
(b)	तनन एवं बंकन कम्पनों को समझाइये।	[2]
	Explain Bending and Stretching Vibrations.	
(c)	ऐन्थोसायनिन पर टिप्पणी लिखिए।	[2]
	Write notes on Anthocyanine.	
	2707ET / OH	
	अथवा/Or	
(a)	निम्नलिखित को समझाइए।	
(a)	•	[3]
(a)	निम्नलिखित को समझाइए।	[3]
(a)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र	[3]
	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following-	[3]
	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region	
	निम्नलिखित को समझाइए। (i) बुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए।	
(b)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) बुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V	[3]
	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy.	
(b)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V NMR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।	[3]
(b) 5. (a)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V NMR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। Explain the theory of NMR Spectroscopy.	[3]
(b) 5. (a)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) बुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V NMR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। Explain the theory of NMR Spectroscopy. MRI पर टिप्पणियां लिखिए।	[3]
(b) 5. (a)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V NMR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। Explain the theory of NMR Spectroscopy. MRI पर टिप्पणियां लिखिए। Write notes on MRI.	[3]
(b) 5. (a) (b)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) बुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V NMR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। Explain the theory of NMR Spectroscopy. MRI पर टिप्पणियां लिखिए। Write notes on MRI.	[3] [4] [2]
(b) 5. (a) (b)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) बुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V NMR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। Explain the theory of NMR Spectroscopy. MRI पर टिप्पणियां लिखिए। Write notes on MRI. अथवा/Or 13CMR स्पेक्ट्रोमिकी का सिद्धांत एवं अनुप्रयोग लिखिए। Explain the principle and application of 13CMR Spectroscopy.	[3] [4] [2]
(b) 5. (a) (b)	निम्नलिखित को समझाइए। (i) वुडवर्ड — फाइजर नियम (ii) फिंगरप्रिन्ट क्षेत्र Explain the following- (i) Woodward-fieser rule (ii) Fingerprint region अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के कोई तीन अनुप्रयोग लिखिए। Write any three application of IR Spectroscopy. इकाई/Unit-V NMR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। Explain the theory of NMR Spectroscopy. MRI पर टिप्पणियां लिखिए। Write notes on MRI. अथवा/Or 13CMR स्पेक्ट्रोमिकी का सिद्धांत एवं अनुप्रयोग लिखिए।	[3] [4] [2]